

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 154] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 22, 1977 'श्रावण 31, 1899
No. 154] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 22, 1977/SRAVANA 31, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 22nd August 1977

SUBJECT :—*Import Policy for Registered Exporters for the period April 1977—March 1978 (Amendment/Errata)*

No. 62-ITC(PN)/77.—Attention is invited to the import policy for Registered Exporters as contained in the Import Trade Control Policy (Policy Book—Volume II) for the period April 1977—March 1978 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 21-ITC (PN)/77 dated the 27th April, 1977.

2. The following amendment may be made at the appropriate place indicated below:—

Page No. of the Policy Book (Vol. II)	Reference	Correction/Amendment
34.	Section I, Part B, Annexure II, Sl. No. 69 Col's 1, 2, 3 and 4	Serial No. 69 and all entries relating thereto shall be omitted.

K V. SESHADRI,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1977

विषय :— अप्रैल 1977—मार्च 1978 की आयात व्यापार नियंत्रण नियम एव क्रिया-विधि पुस्तक (संशोधन) ।

सं० 62 आई टीसी (पीएन) 77.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 21—आईटीसी (पीएन) 77 दिनांक 27-4-77 के अधीन प्रकाशित अप्रैल 1977—मार्च 1978 की आयात व्यापार नियंत्रण नियम एव क्रियाविधि की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे संकेतित उपयुक्त स्थानों पर किए गए समझे जाएं :—

पुस्तक की पृष्ठ सं०	संदर्भ	संशोधन
34	खंड 1, भाग बी, अनुबन्ध II, क्रम सं० 69, कालम 1, 2, 3 और 4	क्रम सं० 69 और उससे संबंधित सभी प्रविष्टियां हटा दी जाएंगी ।

का० वें० शेषाद्वि,

मुख्य नियंत्रक, आयात-नियति ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977